

# Hos

## Chapter 2

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
אָמַרְוּ לְאֶחָיִכֶם עִמִּי וְלֹאֲחֹתֵיכֶם רַחֲמָה:  
कहो अपने-भाइयों-से अम्मी रुहामा  
H0559 H0251 H7355 H0269

“फिर तुम अपने भाई—बंधुओं से कहा करोगे, ‘तुम मेरी प्रजा हो’ और अपनी बहनों को बताया करोगे, ‘उसने मुझ पर दया दिखाई है।’”

2  
רִיבוּ בְּאֵמְכֶם רִיבוּ אִשְׁתִּי לֹא אֲנֹכִי לֹא אִשְׁתִּי הִיא כִּי- רִיבוּ מִקְדָּמָה- אִשְׁתִּי אִשְׁתִּי מִפְּנֵיהֶם מִפְּנֵיהֶם וְנֹאפְוִפִּיהֶם מִבֵּין שְׂרִיָּה:  
मुकद्दमा-करो मुकद्दमा-करो अपनी-माँ-से अपनी-माँ-से मुख-से-उसके मुख-से-उसके व्यभिचार-उसके व्यभिचार-उसके बीच-से और-व्यभिचार-उसके और-व्यभिचार-उसके स्तनों-उसके  
H7378 H0517 H7378 H1931 H3808 H3808 H0802 H0595 H3808 H0376 H5493 H2183 H6440 H5005 H0996

“अपनी माँ के साथ विवाद करो! क्योंकि वह मेरी पत्नी नहीं है! और नही मैं उसका पति हूँ! उससे कहो कि वह वेश्या न बनी रहे। उससे कहो कि वह अपने प्रेमियों को अपनी छतियों के बीच से दूर हटा दे।

3  
פֶּן- אֲפְשִׁיטְנָה עֲרָמָה וְהִצַּנְתִּיהָ כִּי- הוּלָדָה וְשִׁמְתִיהָ כִּמְדָבָר וְשִׁתָּהּ  
कहीं- नंगा-करूँ नंगी नंगी और-खड़ा-करूँ और-खड़ा-करूँ जैसे-दिन जन्म-उसके और-बनाऊँ-उसे और-बनाऊँ-उसे जैसे-जंगल और-रखूँ-उसे  
H6435 H6584 H6174 H3322 H3117 H3205 H7896 H6772 H4191 H6723 H0776

यदि वह अपने इस व्यभिचार को छोड़ने से मना करे तो मैं उसे एक दम नंगा कर दूँगा। मैं उसे वैसा करके छोड़ूँगा जैसा वह उस दिन थी, जब वह पैदा हुई थी। मैं उसके लोगों को उससे छीन लूँगा और वह ऐसी हो जायेगी जैसे कोई वीरान रेगिस्तान होता है। मैं उसे प्यासा मार दूँगा।

4  
וְאֵת- בְּנֵיהֶם לֹא אֲרַחֵם כִּי- בְנֵי וְנֹנִים הֵמָּה:  
और-पर- बच्चों-उसके नहीं दया-करूँगा क्योंकि- पुत्र व्यभिचार-के वे  
H0853 H3808 H7355 H1992 H2183

मैं उसकी संतानों पर कोई दया नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वे व्यभिचार की संताने होंगी।

5  
כִּי וְנָתַתָּה אֲמָם הַבִּישָׁה הַזֵּאת אֲחָרֵי כִּי אָמַרְתָּ אֵלָיָהּ אֲחָרֵי  
क्योंकि व्यभिचार-की माँ-उनकी लज्जित-किया और-उनकी पीछे  
H2181 H0517 H3001 H2029 H0559 H3212 H0157 H5414 H3899 H6785 H4325 H6593 H8081 H8250

उनकी माँ ने वेश्या का सा आचरण किया है। उनकी माँ को, जो काम उसने किये हैं, उनके लिये लज्जित होना चाहिये। उसने कहा था, ‘मैं अपने प्रेमियों के पास चली जाऊँगी। मेरे प्रेमी मुझे खाने और पीने को देते हैं। वे मुझे ऊन और सन देते हैं। वे मुझे दाखमधु और जैतून का तेल देते हैं।’

6  
לֶכֶן הִנְנִי- שָׂדָה אֶת- הַרְקָהּ בְּסִרְיָם וְנִגְדַרְתִּי אֶת- נִגְדַרְתִּי וְנִגְדַרְתִּי לֶכֶן הִנְנִי- שָׂדָה אֶת- הַרְקָהּ בְּסִרְיָם וְנִגְדַרְתִּי אֶת- נִגְדַרְתִּי וְנִגְדַרְתִּי  
इसलिए देखो-मैं- घेरूँगा को- को- मार्ग-तेरे से-काँटों और-बनाऊँगा को- दीवार-उसकी और-पगडण्डियाँ-उसकी  
H2009 H7753 H0853 H1870 H1448 H0853 H1443 H4672 H3808

“इसलिये, मैं (यहोवा) तेरी (इसाएल) राह काँटों से भर दूँगा। मैं एक दीवार खड़ी कर दूँगा। जिससे उसे अपना रास्ता ही नहीं मिल पायेगा।

7	וְרַדְפָּה	אֶת-	מִאֲהָבָיָהּ	וְלֹא-	תִּשְׁיַג	אֹתָם	וּבְקִשְׁתָּם	וְלֹא	תִּמְצָא	וְאִמְרָהּ
	और-पीछा-करेगी	को-	प्रेमियों-उसके	और-नहीं-	पकड़ेगी	उन्हें	और-ढूँढ़ेगी-उन्हें	और-नहीं	पाएगी	और-कहेगी
	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5381</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0559</a>
	אֵלֶיךָ	וְאִשְׁוֹבָהּ	אֶל-	אִשְׁוִי	הֲרֵאשׁוֹן	כִּי	טוֹב	לִי	אִז	מֵעַתָּה:
	जाऊँगी	और-लौटूँगी	की-ओर-	पति-मेरे	पहले	क्योंकि	अच्छा	मेरे-लिए	तब	अब-से
	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H7223</a>				<a href="#">H6258</a>	

वह अपने प्रेमियों के पीछे भागेगी किन्तु वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकेगी। वह अपने प्रेमियों को ढूँढ़ती फिरेगी किन्तु उन्हें ढूँढ़ नहीं पायेगी। फिर वह कहेगी, ‘मैं अपने पहले पति (परमेश्वर) के पास लौट जाऊँगी। जब मैं उसके साथ थी, मेरी जीवन बहुत अच्छा था। आज की अपेक्षा, उन दिनों मेरा जीवन अधिक सुखी था।’

8	וְהָיָא	לֹא	יָדְעָה	כִּי	אֲנֹכִי	נָתַתִּי	לָהּ	הַדָּגָן	וְהַתִּירוֹשׁ	וְהַיַּיִן	וְכֹסֶף
	और-वह	नहीं	जानती-थी	कि	मैंने	दिया	उसे	अन्न	और-नई-दाखरस	और-तेल	और-चाँदी
	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3045</a>		<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1715</a>	<a href="#">H8492</a>	<a href="#">H3323</a>	<a href="#">H3701</a>	
	הַרְבֵּיתִי	לָהּ	וְזָהָב	עָשָׂו	לְבַעַל:						
	बढ़ाई	उसके-लिए	और-सोना	बनाया	बआल-के-लिए						
			<a href="#">H2091</a>								

“वह (इसाएल) यह नहीं जानती थी कि मैं (यहोवा) ही उसे अन्न, दाखमधु और तेल दिया करता था। मैं उसे अधिक से अधिक चाँदी और सोना देता रहता था। किन्तु इसाएल के लोगों ने उस चाँदी और सोने का प्रयोग बाल की मूर्तियाँ बनाने में किया।

9	לִכְנֹ	אֲשׁוֹב	וְלִקְחָתִי	דָּגְנִי	בְּעֵתֹ	וְתִירוֹשִׁי	בְּמוֹעֵדֹ	וְהַצְּלָתִי
	इसलिए	लौटूँगा	और-ले-लूँगा	अन्न-मेरा	मैं-समय-उसके	और-नई-दाखरस-मेरी	मैं-नियत-समय-उसके	और-छुड़ाऊँगा
		<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H1715</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H8492</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H5337</a>
	צְמָרִי	וּפְשָׁתִי	לְכֹסֶת	אֶת-	עָרְוֹתָהּ:			
	ऊन-मेरी	और-सन-मेरा	ढांकने-को	को-	नंगाई-उसकी			
	<a href="#">H6785</a>	<a href="#">H6593</a>	<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6172</a>			

इसलिये मैं (यहोवा) वापस आऊँगा और अपने अनाज को उस समय वापस ले लूँगा जब वह पक कर कटनी के लिये तैयार होगा। मैं उस समय अपने दाखमधु को वापस ले लूँगा जब अँगूर पक कर तैयार होंगे। अपनी ऊन और सन को भी मैं वापस ले लूँगा। ये वस्तुएँ मैंने उसे इसलिये दी थीं कि वह अपने नंगे तन को ढक ले।

10	וְעַתָּה	אֲנִלְהָ	אֶת-	נִבְלָתָהּ	לְעֵינַי	מִאֲהָבָיָהּ	וְאִישׁ	לֹא-	יִצְיִלְנָהּ	מִיָּדִי:
	और-अब	खोलूँगा	को-	लज्जा-उसकी	आँखों-के-साम्हने	प्रेमियों-उसके	और-कोई	नहीं-	छुड़ाएगा-उसे	हाथ-मेरे-से
	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5040</a>		<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H3027</a>

अब मैं उसे वस्त्र विहीन करके नंगा कर दूँगा ताकि उसके सभी प्रेमी उसे देख सकें। कोई भी व्यक्ति उसे मेरी शक्ति से बचा नहीं पायेगा।

11	וְהַשְׁבֵּתִי	כָּל-	מְשׁוֹשָׁהּ	חֲגָהּ	חַדְשָׁהּ	וְשִׁבְתָּהּ	וְכֹל	מוֹעֲדֶיהָ:
	और-समाप्त-करूँगा	सब-	आनन्द-उसका	पर्व-उसका	नए-चाँद-उसका	और-सब-उसका	और-सब	नियत-समय-उसका
		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4885</a>	<a href="#">H2282</a>	<a href="#">H2320</a>	<a href="#">H7676</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4150</a>

मैं (परमेश्वर) उससे उसकी सारी हँसी खुशी छीन लूँगा। मैं उसके वार्षिक उत्सवों, नये चाँद की दावतों और विश्राम के दिनों के उत्सवों का अंत कर दूँगा। मैं उसकी सभी विशेष दावतों को रोक दूँगा।

12	וְהַשְׁמַתִּי	נִפְנָהּ	וְתִאֲנִתָּהּ	אֲשֶׁר	אִמְרָהּ	אֲתַנְּנָהּ	הַמָּהָ	לִי	אֲשֶׁר	נָתַנְנוּ-	לִי
	और-उजाड़ूँगा	दाखलता-उसकी	और-अंजीर-उसकी	जिसको	कहा	भेंट	वे	मुझे	जो	दिया-	मुझे
	<a href="#">H8074</a>	<a href="#">H1612</a>	<a href="#">H8384</a>		<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0866</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H5414</a>			
	מִאֲהָבָי	וְשִׁמְתִים	לְיַעַר	וְאֲכָלְתָם	חַיַּת	הַשָּׂדֶה:					
	प्रेमियों-मेरे	और-बनाऊँगा-उन्हें	जंगल-के-लिए	और-खाएगी-उन्हें	जीव-ने	मैदान-के					
	<a href="#">H0157</a>			<a href="#">H0398</a>							

उसकी अँगूर की बेलों और अंजीर के वृक्षों को मैं नष्ट कर दूँगा। उसने कहा था, “ये वस्तुएँ मेरे प्रेमियों ने मुझे दी थीं।” किन्तु अब मैं उसके बगीचों को बदल डालूँगा। वे किसी उजड़े जंगल जैसा हो जायेंगे। उन वृक्षों से जंगली जानवर आकर अपनी भूख मिटाया करेंगे।

13 וּפְקַדְתִּי וְעָלְיָהּ אֶת-יְמֵי הַבְּעָלִים אֲשֶׁר תִּקְטִיר לָהֶם וְתַעַד אֲתָּה עָלָיוּס-פֶּר אֲתָּה עָלָיוּס-פֶּר אֲתָּה עָלָיוּס-פֶּר

और-दण्ड-दूंगा और-पर उस-पर को- उस-पर और-दण्ड-दूंगा

H3117 H0853

וְנָתַתִּי נְזִמָּה וְחָלִיתָהּ וְחָלִיתָהּ וְחָלִיתָהּ וְחָלִיתָהּ וְחָלִיתָהּ וְחָלִיתָהּ וְחָלִיתָהּ

— यहोवा-का वचन- भूल-गई और-मुझे और-मुझे और-मुझे और-मुझे और-मुझे और-मुझे और-मुझे

H3068 H5002 H7911 H0853 H0157 H3212 H2484 H5141

“वह बाल की सेवा किया करती थी, इसलिये मैं उसे दण्ड दूंगा। वह बाल देवताओं के आगे धूप जलाया करती थी। वह आभूषणों से सजती और नथ पहना करती थी। फिर वह अपने प्रेमियों के पास जाया करती और मुझे भूल जाती।” यहोवा ने यह कहा था।

14 לָכֵן הִנֵּה אֲנִי מְפֹתֶיךָ וְהַלְכְתִּיךָ וְהַמְדַבֵּר וְדַבַּרְתִּי עָלֶיךָ לְבָהּ:

इसलिए देखो मैं फुसलाऊँगा-उसे और-ले-जाऊँगा-उसे जंगल और-बोलूँगा पर हृदय-उसके

H1696 H3212 H0595 H2009

“इसलिये मैं (यहोवा) उसकी मनुहार करूँगा। मैं उसे रेगिस्तान में ले जाऊँगा। मैं उसके साथ दयापूर्वक बातें करूँगा।

15 וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי

और-दूंगा और-दूंगा और-दूंगा और-दूंगा और-दूंगा और-दूंगा और-दूंगा और-दूंगा

H6607 H5911 H6010 H0853 H8033 H3754 H0853 H5414

וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי

— वहाँ-जैसे-दिनों वहाँ-जैसे-दिन और-जैसे-दिन और-जैसे-दिन और-जैसे-दिन और-जैसे-दिन और-जैसे-दिन और-जैसे-दिन

H4714 H0776 H5927 H3117 H3117 H3117 H3117 H3117

वहाँ मैं उसे अंगूर के बगीचे दूँगा। आशा के द्वार के रूप में मैं उसे आकोर की घाटी दे दूँगा। फिर वह मुझे उसी प्रकार उत्तर देगी जैसे उस समय दिया करती थी, जब वह मिस्र से बाहर आयी थी।”

16 וְהִנֵּה בְּיָמֵינוּ הָהוּא וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי וְנָתַתִּי

और-होगा और-होगा और-होगा और-होगा और-होगा और-होगा और-होगा और-होगा

H5750 H7121 H3808 H0376 H7121 H3068 H5002 H1931 H3117 H1961

בְּעָלָי:   
 बआली-मेरे   
 H1180

यहोवा ने यह बताया है। “उस अवसर पर, तू मुझे ‘मेरा पति’ कह कर पुकारेगी। तब तू मुझे ‘मेरे बाल’ नहीं कहेगी।

17 וְהִסְתִּיתִי וְהִסְתִּיתִי וְהִסְתִּיתִי וְהִסְתִּיתִי וְהִסְתִּיתִי וְהִסְתִּיתִי וְהִסְתִּיתִי וְהִסְתִּיתִי

और-हटाऊँगा और-हटाऊँगा और-हटाऊँगा और-हटाऊँगा और-हटाऊँगा और-हटाऊँगा और-हटाऊँगा और-हटाऊँगा

H8034 H5750 H2142 H3808 H6310 H8034 H0853 H5493

बाल देवताओं के नामों को उसके मुख पर से दूर हटा दूँगा। फिर लोग बाल देवताओं के नाम नहीं लिया करेंगे।

18 וְכָרְתִי וְכָרְתִי וְכָרְתִי וְכָרְתִי וְכָרְתִי וְכָרְתִי וְכָרְתִי וְכָרְתִי

और-काटूँगा और-काटूँगा और-काटूँगा और-काटूँगा और-काटूँगा और-काटूँगा और-काटूँगा और-काटूँगा

H8064 H5775 H1931 H3117 H1285 H3772

וְהָשַׁבְתִּים וְהָשַׁבְתִּים וְהָשַׁבְתִּים וְהָשַׁבְתִּים וְהָשַׁבְתִּים וְהָשַׁבְתִּים וְהָשַׁבְתִּים וְהָשַׁבְתִּים

और-लिटारूँगा-उन्हें और-लिटारूँगा-उन्हें और-लिटारूँगा-उन्हें और-लिटारूँगा-उन्हें और-लिटारूँगा-उन्हें और-लिटारूँगा-उन्हें और-लिटारूँगा-उन्हें और-लिटारूँगा-उन्हें

H7901 H0776 H7665 H4421 H2719 H7198 H0127 H7431

לְבַטָּח:   
 सुरक्षित   
 H0983

“फिर, मैं इस्राएल के लोगों के लिये जंगल के पशुओं, आकाश के पक्षियों, और धरती पर रेंगने वाले प्राणियों के साथ एक वाचा करूँगा। मैं धनुष, तलवार और युद्ध के अस्त्रों को तोड़ फेंकूँगा। कोई अस्त्र—शस्त्र उस धरती पर नहीं बच पायेगा। मैं उस धरती को सुरक्षित बना दूँगा जिससे इस्राएल के लोग शांति के साथ विश्राम कर सकेंगे।

וּבְמִשְׁפָּט וּבְצִדְקָה לִי וְאֶרְשָׁתִּי לְעוֹלָם לִי וְאֶרְשָׁתִּי וְאֶרְשָׁתִּי וְאֶרְשָׁתִּי 19  
 और-में-न्याय में-धार्मिकता मेरे-लिए और-मंगनी-करूँगा-तुझसे सदा-को मेरे-लिए और-मंगनी-करूँगा-तुझसे  
[H4941](#) [H6664](#) [H0781](#) [H5769](#) [H0781](#)  
 וּבְרַחֲמֵי וּבְרַחֲמֵי  
 और-में-दया और-में-कृपा

मैं (यहोवा) तुझे सदा—सदा के लिये अपनी दुल्हन बना लूँगा। मैं तुझे नेकी, खरेपन, प्रेम और करुणा के साथ अपनी दुल्हन बना लूँगा।

וְאֶרְשָׁתִּי לִי בְּאֵמוּנָה לִי וְאֶרְשָׁתִּי וְאֶרְשָׁתִּי 20  
 और-मंगनी-करूँगा-तुझसे मेरे-लिए और-मंगनी-करूँगा-तुझसे मेरे-लिए और-मंगनी-करूँगा-तुझसे  
[H3068](#) [H0853](#) [H3045](#) [H0530](#) [H0781](#)

मैं तुझे अपनी सच्ची दुल्हन बनाऊँगा। तब तू सचमुच यहोवा को जान जायेगी

וְהָיָה בֵּינוֹם הַהוּא אֲעֹנֶה נְאֻם-יְהוָה אֲעֹנֶה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְהֵם יַעֲנוּ אֶת- 21  
 और-होगा  
[H0853](#) [H1992](#) [H8064](#) [H0853](#) [H3068](#) [H5002](#) [H1931](#) [H3117](#) [H1961](#)  
 הָאָרֶץ :  
 भूमि  
[H0776](#)

उस समय, मैं तुझे उत्तर दूँगा।" यहोवा ऐसा कहता है: "मैं आकाशों से कहूँगा और वे धरती को वर्षा देंगे।

וְהָאָרֶץ וְהָאָרֶץ וְהָאָרֶץ וְהָאָרֶץ וְהָאָרֶץ 22  
 और-भूमि  
[H0853](#) [H1992](#) [H3323](#) [H0853](#) [H8492](#) [H0853](#) [H1715](#) [H0853](#) [H0776](#)  
 יִזְרְעֵל :  
 यिज़्रैल  
[H3157](#)

धरती अन्न, दाखमधु और तेल उपजायेगी और वे यिज़्रैल की मांग पूरी करेंगे।

וְזָרְעִי וְזָרְעִי וְזָרְעִי וְזָרְעִי וְזָרְעִי 23  
 और-बोऊँगा-उसे और-बोऊँगा-उसे और-बोऊँगा-उसे और-बोऊँगा-उसे और-बोऊँगा-उसे  
[H3808](#) [H0559](#) [H7355](#) [H3808](#) [H0853](#) [H7355](#) [H0776](#) [H2232](#)  
 עַמִּי-מֵרִי :  
 एलोहीम-मेरे कहेगा और-वह तू अम्मी-मेरी-  
[H0430](#) [H0559](#) [H1931](#)

मैं उसकी धरती पर बहुतेरे बीजों को बोऊँगा। मैं लोरूहामा पर दया दिखाऊँगा: मैं लोअम्मी से कहूँगा 'तू मेरी प्रजा है' और वे मुझसे कहेंगे, 'तु हमारा परमेश्वर है।'